

### संपादकीय

#### भूख से मुक्ति और आत्मनिर्भरता की युक्ति

कोरोना महामारी ने दुनिया भर में भय का ऐसा वातावरण बनाया है कि समाज के सभी वर्ग इससे प्रभावित हैं। भारत में गरीब किसान और मजदूर इस संकटकाल में सबसे अधिक प्रभावित हैं। परिवार की आजीविका के लिए अपने गांव और कस्बों से जो मजदूर बड़े शहरों में गए थे, वे आज अपने घर लौट आए हैं। उनके पास कोई नियमित काम नहीं है, इसलिए उनके परिवार की चिंता करना लोक कल्याणकारी सरकार की चिंता स्वाभाविक है। लॉक डाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे नवंबर तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा को मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी मिल चुकी है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल नि:शुल्क दिए जा रहे हैं, साथ में प्रति माह प्रति परिवार एक किलोग्राम चना भी दिया जा रहा है। अप्रैल से जून के लिए केन्द्र सरकार ने 120 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया था, जिसमें से 116 लाख टन अनाज का उठाव कर 107 लाख टन से अधिक खाद्यान्न जनता में नि:शुल्क वितरित किए जा चुके हैं। अब इस योजना को नवंबर माह तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिस पर केन्द्र सरकार को 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का व्यय करना होगा।

देश पर कोई संकट हो, और इसका प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा हो तो सरकार का संवैधानिक दायित्व भी है कि सबसे पहले गरीबों और वंचितों का ध्यान रखा जाए। संविधान के भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की भावना से सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था बनाने का निर्देश शासन को देता है। यही भावना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी है। स्वतंत्रता के बाद भी दो वक्त की रोटी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर न हो सके, यह देश के गौरव पर ठेस है। देश में प्लेग फैल जाए, सुनामी या भूकंप आ जाए, या अभी कोरोना संकट में यही प्रवासी और अप्रवासी मजदूरों को विभीषिका भोगनी पड़ती है। देश भर से चार करोड़ मजदूरों का बड़े शहरों से अपने गांव या कस्बों में वापसी हुई है। कोरोना संकट का असर शहरों व कस्बों में छोटा व्यवसाय करने वाले, सड़कों पर ठेला-खोमचा लगाने वाले वर्गों पर भी पड़ा है, इसलिए इन वर्गों की सरकार और समाज चिंता करे, जरूरी भी है।

हालत के मारे इन मजदूरों, छोटे व्यवसायियों, ठेले-खोमचे लगाने वालों को पेटभर भोजन मिल जाए, यह सरकार की प्राथमिकता है। संकट का दौर तो टल जाएगा लेकिन इस दौरान परिश्रम करने वालों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो जीवन भर इसका दुष्परिणाम हो सकता है। परिवार को भर पेट भोजन न केवल शरीर का पोषण करता है, अपितु वह कमाई न कर पाने के मानसिक अवसाद को भी कम करता है। शहरों से गांव लौटने वालों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया जा रहा है, केन्द्र सरकार के कोरोना कालीन आर्थिक पैकेज में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जबकि अपने बच्चों और परिवारों के भूख की चिंता से मुक्त हो जाए तो वह जिन्दगी की नई पारी प्रारंभ करने के लिए भी उत्साहित रहता है। कोरोना संकट से समाज और अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर भी लेकर आया है। कृषि के प्रति दृष्टिकोण बदला है, वापस लौटे मजदूर अपने खेतों की ओर लौट रहे हैं। इस वर्ष खरीफ की बुवाई में गत वर्ष की अपेक्षा 88 प्रतिशत अधिक बुवाई का संपन्न हो जाना, इस तथ्य की पुष्टि करता गई।

#### भारत-चीन के तनाव के कारण कैसल हुई आमिर खान की शूटिंग

कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद अब सीमा पर भारत और चीन के बढ़ते टेंशन के कारण भी फिल्मों की शूटिंग पर असर पड़ रहा है। गलवान घाटी में चीन की घुसपैठ के बाद भारत और चीन की सेना के बीच हुई मुठभेड़ में भारत के 20 जवानों के शहीद होने के बाद यह तनाव और बढ़ रहा है। खबर है कि इस बीच आमिर खान की फिल्म की शूटिंग लद्दाख में होनी थी। अब भारत और चीन के बढ़ते तनाव के कारण इसे कैसल कर दिया गया है। इससे पहले यही शूटिंग मार्च में होनी थी लेकिन तब कोरोना



लद्दाख में होनी थी। अब भारत और चीन के बढ़ते तनाव के कारण इसे कैसल कर दिया गया है। इससे पहले यही शूटिंग मार्च में होनी थी लेकिन तब कोरोना

# चीनी सामानों का खुलासा नहीं किया तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** धरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और चीन से हो रहे आयात को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। विदेशों से पैकेज्ड आइटम आयात करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों, मैनुफैक्चरिंग कंपनियों और मार्केटिंग एजेंसियों को अब खैर नहीं है। अगर उन्होंने सामान पर कट्टी ऑफ ओरिजन नहीं दिखाया तो उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही एक साल जेल की हवा भी

खाती पड़ सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है। अर्थात् रिटि स्वतः संज्ञान लेते हुए या केन्द्र सरकार के निर्देश पर ऐसी कंपनियों के खिलाफ ऐक्शन ले सकती है। मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव को चीफ कमिश्नर और बीआईएस के डायरेक्टर जनरल को इनवेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया है। केंद्रीय मंत्री राम विलास

पासवान ने कहा कि उन्होंने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों और राज्य सरकारों को लिखा है कि पैकेज्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत प्रोडक्ट पर कट्टी ऑफ ओरिजन का उल्लेख करना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव लीना नंदन ने कहा कि अगर कोई मैनुफैक्चरर या मार्केटिंग फर्म इसका पालन नहीं करती है तो पहली बार में उस पर 25 हजार रुपये का फाइन लगेगा। दूसरी बार ऐसा करने पर 50 हजार रुपये का

जुर्माना देना होगा। इसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना या एक साल की जेल या दोनों भुगताने पड़ सकते हैं। यह ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होगा, अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसकी डिटेल नहीं बताई। अधिकारियों ने बताया कि सभी मैनुफैक्चरर्स, आयातकों, पैकर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट पर कट्टी ऑफ ओरिजन डिस्क्ले करने का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है।

#### वोडाफोन-आइडिया की हालत बेहद खराब, टावर कंपनियों का बिल चुकाने के भी नहीं हैं पैसे

**नई दिल्ली।** वोडाफोन रफू और आदित्य बिरला रफू के ज्वाइंट वेंचर वोडाफोन आइडिया ने टेलिकॉम टावर कंपनियों को जून महीने का रेंटल और एनर्जी का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया है। टेलिकॉम टावर फर्म के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस डिफॉल्ट की वजह एडस्टेज ग्रॉस रेवेन्यू का सरकार को किया गया भुगतान है। उसकी वजह से पैसों की दिक्कत हो गई, जिसके चलते कंपनी रेंट और एनर्जी का बिल नहीं दे पाई। उन्होंने कहा- सामान्य तौर पर कंपनी हर महीने की तीसरी तारीख को

भुगतान कर देती है, लेकिन इस महीने हमें एक भी पैसा नहीं मिला है। वोडाफोन आइडिया का सारी टेलिकॉम कंपनियों पर कुछ सौ करोड़ रुपये का बिल बकाया है। इससे एक चैन रिक्वेशन होगा, क्योंकि हमें अपने सप्लायर्स को भी भुगतान करना होता है, जिसमें तेल कंपनियां भी शामिल हैं। वोडाफोन आइडिया इस समय पैसों की भारी दिक्कत से जूझ रही है। जब से कंपनी को सुप्रिम कोर्ट की तरफ से 5.4 हजार करोड़ रुपये के एजीआर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

**यूनियन बैंक ने एमसीएलआर में 0.20 प्रतिशत की कटौती की मुंबई (आरएनएस)।** सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुवार को विभिन्न अवधि के लिए सीमांत लागत धन-आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में 0.20 प्रतिशत कटौती की घोषणा की। नई दरें 11 जुलाई से लागू होंगी। बैंक ने एक विज्ञापन में कहा कि संशोधित एक वर्षीय एमसीएलआर 7.60 प्रतिशत की जगह 7.40 प्रतिशत होगी। तीन महीने और छह महीने के एमसीएलआर को घटाकर क्रमशः 7.10 फीसदी और 7.25 फीसदी कर दिया गया है।

#### टाटा मोटर्स की वैश्विक बिक्री में 64 प्रतिशत गिरावट

**मुंबई।** टाटा मोटर्स समूह की वैश्विक थोक बिक्री चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 64 प्रतिशत गिर गयी। इसमें जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की बिक्री भी शामिल है। कंपनी ने शेयर बाजार को शुरुवार को जानकारी दी कि टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहनों और टाटा देवू श्रृंखला के वाहनों की कुल वैश्विक बिक्री अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 89 प्रतिशत गिरकर 11,598 इकाई रही। इसी तरह कंपनी के सभी यात्री वाहनों की वैश्विक थोक बिक्री समीक्षावधि में सालाना आधार पर 49 प्रतिशत गिरकर 79,996 वाहन रही। जबकि जेएलआर की वैश्विक बिक्री इस दौरान 65,425 इकाई

रही। इस प्रकार पूरे समूह की कुल वैश्विक बिक्री सालाना आधार पर 64 प्रतिशत गिर गयी। हालांकि, कंपनी ने पिछले साल इस अवधि के दौरान वाहनों के तुलनात्मक बिक्री आंकड़े जारी नहीं किए हैं। कोरोना काल में ऑटो कंपनियों की बिक्री प्रभावित हुई है। यही वजह है कि टाटा मोटर्स ने एक नया फाइनैसिंग ऑफर पेश किया है। इसके तहत बिना डाउन पेमेंट के आप टाटा की नई कार खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स ने यह नया फाइनैसिंग ऑफर करू र वैश्य बैंक की पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स के नए ऑफर के तहत आप कंपनी की टियागो, नेक्सॉन और अल्ट्राज कारों को बिना डाउनमेंट दिए खरीद सकते हैं।

## रिलायंस-बीपी संयुक्त उद्यम से पांच वर्ष में 60 हजार नई नौकरियां



**नई दिल्ली (आरएनएस)।** मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ममुक्त करने के बाद अब अपने कारोबार को और तेजी से आगे बढ़ाने की योजना को मूर्त रूप देते हुए ब्रिटिश पेट्रोलिएम (बीपी) के साथ मिलकर भारतीय बाजार में ईंधन और विमान ईंधन की खुदरा बिक्री के लिये रिलायंस बीपी-मोबिलिटी लिमिटेड (आरबीएमएल) संयुक्त उद्यम गठित किया है जिससे अगले पांच वर्ष में 60 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रिलायंस के अभी 1400 खुदरा बिक्री केंद्र हैं।

संयुक्त उद्यम के तहत अगले पांच साल में ईंधन खुदरा नेटवर्क को बढ़ाकर साढ़े पांच हजार करने की योजना है। इनके खुल जाने पर 60 हजार नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मौजूदा में यह 20 हजार हैं जो बढ़कर 80 हजार तक हो

जाएंगे। रॉब्रांडिंग के तहत यह स्टेशन जियो- बीपी ब्रांड के तहत स्थापित किये जायेंगे। विमान ईंधन के लिए संयुक्त उद्यम का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में अपनी पहुंच 30 से 45 हवाई अड्डों तक करना है। गत अगस्त में ही दोनों कंपनियों ने संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की थी। अब इसे मूर्त रूप दिया गया है। बियाना में कहा गया है कि जियो-बीपी ब्रांड के तहत परिचालन के तहत इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य देश के ईंधन और गतिशील बाजारों में एक प्रमुख कंपनी बनना है।

#### दिशा पटानी की ताजा तस्वीर ने बिखेरी मुस्कराहट




बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक सुंदर तस्वीर साझा की है। दिशा ने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी पोस्ट की है जिसमें वह अपनी खूबसूरत मुस्कान दिखाती नजर आ रही हैं। सेल्फी में उनके बाल खुले हुए हैं और वह बिना मेकअप लुक में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शेयर सेल्फी में कैप्शन के रूप में पिंक फ्लॉवर इमोजी का प्रयोग किया है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, दिशा को आखिरी बार मलंग में देखा

गया था, जिसमें अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर और कुपाल केमू भी थे। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म मलंग का सीचल बनने की पूरी तैयारी है, इस बात की निमाताओं ने पुष्टि कर दी है। दिशा की आने वाली फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई है जिसमें वह अभिनेता सलमान खान के साथ दिखाई देंगी। इस इंद्र पर ही रिलीज होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण रिलीज को टालना पड़ा।

#### इंस्टाग्राम पर 1 पोस्ट कर करोड़ों कमा लेती हैं प्रियंका चोपड़ा



हर साल को तरह इस बार भी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की लिस्ट जारी हुई है। साल 2019 में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिलेब्रिटीज में दो भारतीय स्टार्स भी शामिल हैं। जी हां प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल होनेवाले दो मात्र भारतीय सिलेब्रिटीज हैं। वेबसाइट ने पिछले साल इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले इन सितारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा 28वें नंबर पर हैं, जबकि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दो पायदान ऊपर 26वें नंबर पर हैं। पिछले साल प्रियंका 19वें पायदान पर थीं और कोहली 23वें नंबर पर थे। जहां प्रियंका चोपड़ा को एक पोस्ट पर लगभग 2.15 करोड़ रुपये मिले हैं, वहीं विराट कोहली ने एक पोस्ट से कमाई 2.21 करोड़ रुपये की कमाई की है।

यहां बता दें कि पिछले साल भी इस लिस्ट में केवल यही दो इंडियन सिलेब्रिटीज शामिल थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फास्ट एंड फ्यूरियस स्टार ड्वेन जॉनसन, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद हैं काइली जेनर। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथे नंबर पर किम कार्दशियन हैं। पांचवें नंबर पर एरियाना ग्रैंडे, छठे पर सेलेना गोमेज, सातवें पर बियांसे नोल्स, आठवें पर जस्टिन बीबर, नौवें नंबर पर टेलर स्विफ्ट और दसवें नंबर पर फुटबॉलर नेयमार जूनियर हैं।

#### अनिल कपूर को वर्कआउट करता देख इम्प्रेस हुए रितिक रोशन

अनिल कपूर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फालोइंग है। वह फिल्मों में एक्टिंग के अलावा अपनी स्टाइल और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। अनलॉक 1 के बाद उनकी कई तस्वीरें सामने आईं जब वह घर से बाहर जाँगिंग के लिए निकले। हाल ही में अनिल ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर कीं। इनमें उनकी बेहतरीन बाँडी नजर आ रही है। यही नहीं, ये तस्वीरें फैंस को वर्कआउट के लिए मोटिवेट कर रही हैं। उन्होंने

इस पर कैप्शन दिया, मैं इतना फिट कभी नहीं रहा जितना आज हूँ... दिमाग से मजबूत, शरीर से मजबूत...। जैसे ही अनिल ने फोटोज शेयर किए, इन पर तमाम लोगों के रिएक्शन्स आने लगे। हालांकि, जिसके कॉमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा, वह थे बॉलिवुड के ग्रीक गॉड रितिक रोशन। अनिल की तस्वीरें देख रितिक काफी इम्प्रेस हुए और लिखा, बस. बाकी सब खत्म। इसके साथ उन्होंने आग वाला इमोजी बनाया।

## बच्चों को चॉकलेट खिलाने के फायदे और सही मात्रा

हर उम्र के लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद आती है और बच्चों की बात करें तो चॉकलेट देखकर उनके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान आ जाती है। अक्सर माना जाता है चॉकलेट खाने से बच्चों के दाँत खराब हो जाते हैं और बच्चों को चॉकलेट खिलाना सही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को चॉकलेट खाने से कई तरह के फायदे होते हैं जिनके बारे में आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। इन फायदों को जानने के बाद आप भी अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाना शुरू कर देंगीं।

**स्किन प्रॉब्लमस-** अगर आपके बच्चे को स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या उसकी त्वचा स्वस्थ नहीं रहती है तो चॉकलेट की मदद से ये परेशानी दूर हो सकती है। चॉकलेट एक्ने पैदा किए बिना स्किन को हेल्दी बनाने का काम करती है। चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बच्चों के शरीर में फ्री रेडिकल्स को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। **पोषक तत्वों से भरपूर-** डार्क चॉकलेट को कई तरह से हेल्दी माना जाता है। इसमें कई तरह के खनिज पदार्थ जैसे कि सिलेनियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि होते हैं। इस वजह से भी आपको अपने बच्चों को चॉकलेट खिलानी चाहिए।

### शब्द सामर्थ्य- 79

बाएं से दाएं

1. भारत के वर्तमान विद्यमान 6. हित, उपकार 7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य 8. किसी वस्तु व्यक्ति आदि के पहचान नामवर, प्रसिद्ध 27. संसार का स्वामी, बादशाह, सम्राट, ईश्वर 28. फैलाता, बिंचाव पैदा करना।
- उपर से नीचे
1. मारना, प्रहार करना, आघात करना 2. मिथ्याअभिमान, आडंबर 3. विपत्ति, आफत 4. मालदार, धनवान, अमीर 5. ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना 7. हक 9. विवश, लाचार 11. मानकंड, नापने का पैमाना 12. अपमानित और तिरस्कृत 17. संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जन्म देने की क्रिया 18. लंबे कपड़े का गुट्टा, पशुओं को रखने की जगह 19. जलयान, वायुयान, जलयोत 21. आश्रय, सहारा 22. थोड़ा, जरा, तनिक 24. जुर्म, गुनाह 26. बाघ की तरह का धारीदार हिंसक एवं विशाल पशु।

**शब्द सामर्थ्य क्रमांक 78 का हल**

भू	कं	प	फा	य	दा	स
प	ल	ला	ट	य	ती	म
ति	ल	क	क	न	क	झ
क्ष			रे			
ग	ण	क	सं	श	य	सौ
ह	या	च	क	म	न	त
रा	क्ष	स	र	क्ष	क	न
त्रि			मि			
शा	य	री	का	त	र	गो

### सू-दोक्-79

2	6	8	3
9	8	3	4
			5
5	2	7	6
	8	4	1
			3
8	9		1
5			4

**सू-दोक् क्र.78 का हल**

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5	6	2	
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

#### आज का राशिफल

**मेष:** आज का दिन आपका मिश्रित प्रभाव के साथ गुजरेगा। घर के सदस्य या फिर सन्तान के व्यवहार से आप दु:खी रहेंगे। **वृषभ:** अब समय आ गया है जब आपको अपने भण्डार में से कुछ वस्तुओं को बाहर निकालकर उसका तोल-मोल करवा लेना चाहिए। **मिथुन:** आपने जिस कारण की पृष्ठभूमि लोगों के बीच बनाई है उसके बल पर आज का दिन आपके लिए अच्छे व्यतीत होगा। **कर्क:** आज सुबह से ही कुछ प्रतिकूल समय आपके लिए चल रहा है। हो सकता है आज ही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो। **सिंह:** इन दिनों आपका सबकुछ ठीकठाक चल रहा है। कारोबार की स्थिति भी सुधरती जा रही है। किसी बड़े अधिकारी के साथ में होने से नौकरी में भी आपकी स्थिति मजबूत है। **कन्या:** किसी समय आप जब अच्छे मूड में रहते हैं तो अपने चहेतों का भला करने में पीछे नहीं रहते हैं। **तुला:** किसी परिधा प्रतियोगिता के लिए आपको तैयार रहना है, अगर आप अपने व्यवसाय या कारोबार से संबंधित कोई अनुबंध या लिखपट्टी करना चाहते हैं तो दिन के समय कहीं कर डालें। **वृश्चिक:** कभी-कभी कोई काम आपकी सोच के विपरीत हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को आप सज्जन समझते हैं वहीं धोखा दे जाता है। **धनु:** कई दिनों से आप किसी छोटे-मोटे काम के बिगड़ जाने से आश्चर्यचकित हैं। हो सकता है आज आपके इस काम में सुधार हो जाए। **मकर:** आज का दिन कुछ जानकारीपूर्ण और आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। अच्छे गणमान्यजनों से मिल मुलाकात होगी और किसी बड़े लाभ की आशा में दिन सार्थक नजर आएगा। **कुंभ:** इस समय अपने कार्यक्षेत्र में आने-जाने और सभी कार्यों को समय पर निबटाने का दौर चल रहा है। इस बीच कुछ अपने ही लोग आपकी चिन्ता भी बढ़ा सकते हैं। **मीन:** आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चलेगा। दिन के पहले हिस्से में बहुत सारे काम एक साथ आपके सामने लटके रहेंगे।